

## श्री भूपिन्दर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीजीईडब्ल्यूएचओ का प्रोफाइल

श्री भूपिन्दर सिंह ने वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 30 सितंबर, 1985 को केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवाएं (सिविल) के एमईएस काडर में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में पदभार ग्रहण किया। सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में आप फिरोजपुर (पंजाब) और अखनूर (जम्मू एवं कश्मीर) में उग्रवाद के दौरान सेना के अनेक महत्वपूर्ण सिविल अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों के निष्पादन में शामिल रहे।

श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में गैरिसन इंजीनियर (वायु सेना) के रूप में आप वायु सेना के सिविल अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों में शामिल रहे, जैसे - आवास, रनवे और टैक्सी ट्रेक (सख्त और सुनम्य), अन्य तकनीकी निर्माण कार्य आदि। उन्हें 26 जनवरी, 1997 को इयूटी के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए 'वायु सेना प्रमुख प्रशंसापत्र' प्रदान किया गया। आपने येलाहांका में गैरिसन इंजीनियर (वायु सेना) के रूप में भी सेवा की, जहां एयरो इंडिया इंटरनेशनल शो-2001 से संबंधित सभी सिविल अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य, समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक पूरे किए गए और उन्हें इयूटी के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए 'एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ प्रशंसापत्र' प्रदान किया गया था।

आपने वायु सेना स्टेशन बामरौली (इलाहाबाद) में कमांडर वर्क्स इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया, जहां मध्य भारत के तीन राज्यों में सेंट्रल एयर कमांड के अधीन नौ वायु सेना स्टेशनों के सिविल और विद्युतीय अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की प्लानिंग और क्रियान्वयन का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया। आपने एमईएस (मुख्यालय) में निदेशक (कार्मिक) के रूप में भी कार्य किया और आपको सिविल अधिकारियों/ स्टाफ की वरिष्ठता, पदोन्नतियों तथा विधिक मामलों से संबंधित कार्रवाई करने में विशेषज्ञता प्राप्त है।

आपने प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव और जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोक नीति एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीपीएम) किया।

आपने सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2015 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर मुख्य अभियंता के रूप में भी सेवा की, जिसमें आप समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 15000 आवासीय इकाइयों का निर्माण करने में कारक थे। आपने उपभोक्ताओं और ग्राहकों / केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए एक गतिशील, सक्रिय और जिम्मेदार संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से नियमित आधार पर 19 जनवरी, 2016 से सीजीईडब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला। आपको प्लानिंग, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, मध्यस्थता, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक तकनीकी और प्रबंधकीय अनुभव प्राप्त है। आप 'जिओ-टेक्निकल सोसाइटी ऑफ इंडिया' और 'डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया' के आजीवन सदस्य हैं।